



भारत सरकार/Government of India
अंतरिक्ष विभाग/Department of Space
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन/Indian Space Research Organisation
इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स/ISRO PROPULSION COMPLEX
महेंद्रगिरि/Mahendragiri – 627 133



भर्ती अनुभाग/RECRUITMENT SECTION

संदर्भ/Ref.: Advt. No.IPRC/RMT/2019/03 dated 21.09.2019

In connection with the Written Test held on 10th April 2022 for selection to the post of Cook at IPRC, Mahendragiri, vide Advt. No. cited above, the Skill Test is scheduled to be held for the candidates who have been shortlisted from the Written Test as detailed below:


Date : 10.09.2022 (Saturday)
Reporting Time : 0700 hrs
Venue : ISRO Propulsion Complex,
Mahendragiri, Tirunelveli District,
Tamil Nadu – 627 133

The list of candidates who are shortlisted for the Skill Test is published at the end of this notification.

The email intimation for the shortlisted candidates will be sent shortly. HOWEVER, CANDIDATES ARE ADVISED TO GO THROUGH THIS NOTIFICATION CAREFULLY AND TAKE NECESSARY STEPS PRESCRIBED BELOW.

The shortlisted candidates are advised to send scanned copies of the following certificates **by email** to aormt@iprc.gov.in immediately, but not later than **24.08.2022 (Wednesday)**.

- ✓ **Bio-data:** The candidates have to fill the Bio-data format attached herewith, paste their Photograph in the space provided.
- ✓ Identity proof viz. Aadhaar/PAN/Passport/Driving License/Voter ID etc.
- ✓ SSLC/SSC Certificate and Marksheet.
- ✓ 5 years Experience Certificate issued by a well established Hotel/Canteen.
- ✓ Certificate for Reservation in the prescribed format for appointments under Government of India from the Competent Authority for candidates belonging to SC/ST categories.



अधीकारी, आरपीआरसी
Admitting Officer, IPRC

- ✓ OBC certificate, in the prescribed format for appointments under Government of India, which should specifically include the clause regarding "Exclusion from Creamy Layer" for OBC candidates.
- ✓ No Objection Certificate (NOC) from the current employer in case of candidates who are currently employed under Government/Semi Government Organisation/Autonomous or Public Sector Undertaking/Private Organisation aided by Government. If selected, you will have to resign from the present employment and join this Organisation as a fresh entrant.

The Call Letter will be sent to the shortlisted candidates through email only after successful scrutiny of scanned copies of the above documents. The candidates should submit the ORIGINALS of the above documents while appearing for the Skill Test.

GENERAL INSTRUCTIONS

1. The Candidates are being called for the Skill Test on the basis of the details furnished in the online application. In case any candidate fails to substantiate the particulars furnished in the online application or concealed/distorted any information or found to be not meeting the prescribed qualifications at any stage of the recruitment, his/her candidature will be deemed invalid.
2. The Candidates are also advised to carry a valid photo ID card viz. Aadhaar/PAN card/Driving License/Electoral ID etc. alongwith the Call Letter, without which they will not be permitted to attend the Skill Test.
3. The candidates have to be present at the aforesaid venue at the stipulated time i.e.; **0700 hrs** else their candidature will be deemed invalid.
4. The candidates need not to bring any tools for the Skill Test. Adequate tools will be provided at the venue.
5. The candidate may have to stay for the next day also, if required, at his/her own expenses.
6. Candidates alone will be permitted inside IPRC Campus.
7. Electronic gadgets viz. Calculators, Mobile Phones, Bluetooth/Wired Headsets, Smart Watches, Pendrives/Storage Devices, CD/DVDs, Cameras, Tablets, PCs, Laptops etc. are strictly not allowed inside the IPRC campus.
8. **All Candidates who successfully complete the Certificate Verification and participate in the Skill Test will be paid Second Class to and fro Railway fare (by shortest route) from the nearest Railway Station to IPRC, Mahendragiri on submission of duly filled TA CLAIM FORM attached herewith alongwith originals of Rail/Bus Tickets.**
9. Any request for change of Venue or Date of Skill Test will not be entertained.
10. Any canvassing by or on behalf of the candidates or to bring political or other outside influence with regard to the selection/recruitment will be considered as **DISQUALIFICATION**.
11. No interim correspondences shall be entertained. Any urgent queries can be sent to career@iprc.gov.in.


शा. अधिकारी, आईपीआरसी
Admin. Officer, IPRC

HOW TO REACH IPRC, MAHENDRAGIRI

IPRC, Mahendragiri is located near **Kavalkinaru Junction** which is about 22 kms away from Nagercoil in the Nagercoil–Tirunelveli National High Way.

For those candidates coming from Kerala & Kanyakumari District, Nagercoil is the nearest Railway Station. Lodging facilities are available in Nagercoil. Tamil Nadu State Transport Buses proceeding to Tirunelveli/Madurai are available from Vadassery Bus Stand, Nagercoil. All these buses (except End-to-End buses) will stop at Kavalkinaru Junction. Get down at this Junction.

For those candidates coming from Other States & Other Districts of Tamil Nadu touching Tirunelveli, Tirunelveli New Bus Stand which is 4 kms away from the Tirunelveli Railway Station. Tamil Nadu State Transport Buses proceeding to Nagercoil are available from Tirunelveli New Bus Stand. All these buses (except End-to-End buses) will stop at Kavalkinaru Junction. Get down at Kavalkinaru Junction which is 53 kms from the Bus Station.

IPRC, Mahendragiri is about 500 mtrs away from Kavalkinaru Junction. Auto-rickshaws are also available at this junction. Show the call letter and valid photo ID card at the main gate and the security personnel will guide you.

LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR SKILL TEST

Name of the Post: COOK
Vacancy: 01 (UR)

SI No	Reg. No.	Roll No.	Name (S/Shri/Smt/Kum)
1	32100028	320049	SRINIVAS K
2	32100062	320054	VENKATESAN D
3	32100067	320055	SUNIL RAMDAS MAHAKAD
4	32100088	320006	JEEVA P
5	32100097	320007	SIVA SUBRMANIAN M
6	32100109	320062	ADITH N S
7	32100119	320010	GNANASUNDARARAO MANCHIKALAPUDI
8	32100201	320021	KAPIL SIKDER
9	32100209	320022	VINOD BALAN C
10	32100217	320067	DILJITH P P
11	32100252	320031	ABHISHEK KUMAR SHUKLA
12	32100258	320033	DEVARLA SHAM KUMAR
13	32100287	320072	RATHEESH T
14	32100288	320073	VISHNU V S
15	32100293	320076	RAJESH R


Administrative Officer (Recruitment)



भारत सरकार/Government of India
अंतरिक्ष विभाग/Department of Space
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन/Indian Space Research Organisation
इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स/ISRO PROPULSION COMPLEX
महेंद्रगिरि/Mahendragiri

जीवनवृत्त फार्मेट/BIO-DATA FORMAT

(इस फॉर्म को भरने से पूर्व कृपया अंतिम पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों को देखें)
PLEASE SEE INSTRUCTIONS ON LAST PAGE BEFORE FILLING THIS FORM)

विज्ञापन सं./Advt. No.	
विज्ञापन तारीख/Advt. Date	
पद का नाम/Name of the Post	
कोड सं./Code No.	
पंजीकरण सं./Reg. No.	
अनुक्रमांक/Roll No.	

**Affix Recent
Passport Size
Photograph**

1.	पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में Full Name in BLOCK LETTERS			
2.	जन्म तिथि/Date of birth	दिन/Day	माह/Month	वर्ष/Year
3.	वैवाहिक स्थिति/Marital Status	अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर Single/Married/Widow/Widower		
4.	राष्ट्रीयता/Nationality			
5.	वर्ग/Category	<input type="checkbox"/> सामान्य/General <input type="checkbox"/> अनुसूचित जाति/Scheduled Caste <input type="checkbox"/> अनुसूचित जनजाति/Scheduled Tribe <input type="checkbox"/> अन्य पिछड़े वर्ग/Other Backward Class <input type="checkbox"/> आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/Economically Weaker Section <input type="checkbox"/> दिव्यांग/Differently Abled (प्रकार/Type _____, प्रतिशत/Percentage ____) <input type="checkbox"/> भूतपूर्व सैनिक/Ex-Serviceman (___ वर्ष/Years, ___ महीने/months)		
6.	पता/Address	पत्राचार के लिए/Correspondence	स्थायी/Permanent	
	ई-मेल आई.डी./E-mail ID:			
	दूरभाष सं./Phone No.:			

7. एस.एस.एल.सी./एस.एस.सी. से शुरू करते हुए कालानुक्रम में शैक्षिक अर्हताएँ Educational Qualifications in chronological order starting from SSLC/SSC							
क्रम सं. Sl. No.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम Name of Examination Passed	बोर्ड/ विश्वविद्यालय Board/ University	उत्तीर्ण होने का वर्ष Year of Passing	श्रेणी/वर्ग Class/ Division	अंकों का प्रतिशत/ सीजीपीए Percentage of Marks/ CGPA	विषयों Subjects	विशिष्टता, यदि कोई हो Specialisation, if any
8. वर्तमान में किए जा रहे अध्ययन/पाठ्यक्रम के ब्यौरे Details of Study/Course, currently being pursued							
क्रम सं. Sl. No.	अध्ययन/पाठ्यक्रम का नाम Name of Study/Course	बोर्ड/ विश्वविद्यालय Board/ University	प्रारंभ करने का वर्ष Year of Commencement	पाठ्यक्रम का अवधि Duration of Course	क्या नियमित/ अल्पकालिक/ दूरस्थ Whether Regular/ Part-time/ Distance	विषयों Subjects	विशिष्टता, यदि कोई हो Specialisation, if any
9. पूर्व/वर्तमान रोज़गार/प्रशिक्षता/प्रशिक्षण का विवरण Details of the Previous/Present Employment/Apprenticeship/Training							
				वर्तमान/Present	पूर्व-I/Previous-I	पूर्व - II/Previous-II	
संगठन का नाम व पता Name and address of Organisation							
क्या सरकारी/अर्ध सरकारी/निजी आदि है, उल्लेख करें Whether Govt./Quasi Govt./Private etc.							
धारित पद का नाम Name of the Post held							
वेतनमान/प्राप्त वेतन Scale of pay/Salary drawn							
सेवा की अवधि Period of Service		से/From					
		तक/To					
उल्लेख करें की क्या रोज़गार किसी विशिष्ट अवधि के लिए प्रतिबन्धित है/था अथवा यह नियमित रोज़गार है/था State whether the employment is/was restricted for specific duration or it is/was regular employment							
कार्य का प्रकृति संक्षेप में Nature of job in brief							
रोज़गार छोड़ने का कारण Reasons for leaving							
क्या आप किसी प्रकार का बन्धपत्र निष्पादित किया है? यदि हाँ तो विवरण दें Have you executed any bond? If so, give details							

10.	यदि आपके प्रश्न 7 से 9 तक के उत्तरों से आपके विद्यालय छोड़ने से अब तक की समयावधि का समावेश नहीं होता तो उल्लेख करें कि शेष अवधि आपने कैसे बिताई If your reply for question 7, 8 & 9 do not cover all the period from your school leaving, briefly state how you spent the uncovered period					
11.	व्यावसायिक संकाय/संस्थान/समिति से संबन्ध का विवरण Details regarding association with Professional bodies/Institutes/Societies					
	नाम Name	सदस्यता का स्वरूप Nature of Membership	उत्तरदायित्व की स्थिति, यदि कोई हो Position of responsibility held, if any			
12.	भाषा ज्ञान Languages Known	पढ़ना Read	लिखना Write	बोलना Speak		
13.	क्या आपने किसी सरकारी/लोक प्राधिकरण सेवा की बाध्यता का अनुबंध किया है? Are you under any contractual obligation to serve any Govt./Public Authority?	हाँ Yes	नहीं No	हाँ तो, कृपया संबंधित विवरण दें If Yes, please give relevant details		
14.	क्या आपने इसरो/डीओएस में किसी पद के लिए आवेदन दिया है? Have you applied for any post in ISRO/DOS before?	हाँ Yes	नहीं No	हाँ तो, कृपया नीचे विवरण दें If Yes, please give details below		
क्रम सं. Sl. No.	पद Post	इसरो/डीओएस केंद्र/यूनिट का नाम Name of ISOR/DOS Centre/Unit	विज्ञापन सं., महीना एवं वर्ष Advt. No., Month & Year	चयन का स्थिति Status of Selection	परिणाम Result	
15.	क्या आपको इसरो/डीओएस में किसी पद में चयन हो गया है? Have you been selected for any post in ISRO/DOS before?	हाँ Yes	नहीं No	हाँ तो, कृपया नीचे विवरण दें If Yes, please give details below		
16.	क्या आपको कभी किसी अपराध अथवा दुराचरण के लिए न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया है अथवा किसी न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही चल रही है? Have you ever been convicted by a court of Law for any offence or misconduct or are there any proceedings involving you in progress in any court of law?	हाँ Yes	नहीं No	हाँ तो, कृपया संबंधित विवरण दें If Yes, please give relevant details		

17.	क्या आप पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हुए हैं? Have you suffered from any major illness during last five years?	हाँ Yes	नहीं No	हाँ तो, कृपया संबंधित विवरण दें If Yes, please give relevant details
18.	यदि आपका चयन किया जाता है तो कार्यग्रहण में कितना समय लेंगे? If selected, how soon can you join?			
19.	दो उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम व पता का उल्लेख करें (अपने संबंधियों के अतिरिक्त) जिनसे आपकी व्यावसायिक योग्यता की समीक्षा कराई जा सके Mention Name and Address of two responsible persons (other than your relatives) who can comment upon your professional competence			
	ई-मेल आई.डी./E-mail ID: दूरभाष सं./Phone No.: मोबाईल सं./Mobile No.:		ई-मेल आई.डी./E-mail ID: दूरभाष सं./Phone No.: मोबाईल सं./Mobile No.:	
यदि अन्य कोई संबंधित सूचना देना चाहते हैं जो इससे पहले नहीं दी गयी है तो, कृपया अधोस्थान का उपयोग करें Please use this space if you want to add any other relevant information not already covered				

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस जीवनवृत्त में दी गई सूचना सत्य एवं सही है। मैं पूर्णतः जानता/जानती हूँ कि किसी भी स्थिति में यदि यह सामने आया कि मैंने जान बूझकर किसी तथ्य को गुप्त रखने अथवा गलत रूप में निरूपित करने का प्रयास किया है तो, मेरी अभ्यार्थिता रद्द कर दी जाए।

I certify that the foregoing information in this bio-data is true and correct. I am fully aware that if it is discovered at any stage that any attempt has been made by me to willfully conceal or misrepresent the facts, my candidature may be summarily rejected.

दिनांक/Date:

स्थान/Place:

हस्ताक्षर/Signature

कृपया ध्यान दें/PLEASE NOTE

- उत्तर स्पष्ट व वर्गीकृत रूप में होने चाहिए। किसी भी खाने में अस्पष्ट व अनिश्चित उत्तर के भरे जाने से अभ्यार्थिता रद्द हो सकता है।
Replies should be in clear and categorical terms. Vague or evasive answers in any column may lead to rejection of the candidature.
- जहाँ ब्योरे को उचित रूप में लिखने के लिए स्थान अपर्याप्त हो, कृपया इसके लिए अतिरिक्त पत्रक संलग्न कर लें, कृपया इसे संबंधित खाने में सूचित करें।
Wherever the space provided is insufficient to write appropriate details, please attach separate sheets, in doing so, please indicate that fact in the relevant column.
- पृष्ठ 2 पर रोज़गार के स्वरूप से संबंधित जानकारी के बारे में, कृपया ध्यान दें कि "नियमित" रोज़गार का अर्थ है वह रोज़गार जो अनिश्चित अवधि के लिए हो। जहाँ रोज़गार में किसी निश्चित अवधि की अनुबंधता अर्थात अवधि निर्धारित हो, चाहे अनुबंध के रूप में हो अथवा नहीं, ऐसे रोज़गार का अर्थ है वह रोज़गार को "विशिष्ट अवधि के रूप में" दर्शाया जाना चाहिए।
With regard to the query in Page 2 regarding nature of employment, please note that a "Regular" employment means an employment for an indefinite period. Wherever, the condition of the employment stipulates any definite duration or any prescribed period of employment, either in the form of a contract or not, such employment should be shown as "SPECIFIC DURATION".

ISRO PROPULSION COMPLEX
Mahendragiri

FORM FOR CLAIMING TRAVELLING EXPENSES FOR ATTENDING SKILL TEST

01.	Name of the candidate (in BLOCK LETTERS)	
02.	Name of the Post and Date of Skill Test	
03.	Particulars of Railway/Bus journey performed to appear for Skill Test	
	a) Started from (Name of Railway/Bus Station)	
	b) Date of starting the journey	
	c) Class in which travelled	
	d) PNR No./Ticket No.	
04.	Whether concessional return ticket was produced	YES/NO
05.	Amount of ticket fare paid	
06.	Whether Bus Tickets attached in respect of journey by Road	YES/NO

BANK ACCOUNT DETAILS

07.	Bank A/C No.	
08.	Name of the Bank	
09.	Branch Name & Address	
10.	IFSC Code	

I certify that the particulars given above are correct and that I performed the journey by class by Rail/Bus as mentioned above. I also undertake to perform the journey by the same class and destination mentioned above. Please reimburse the amount admissible to me.

Date:

Signature of the candidate